

だい第 3 か課

ふゆ 冬はとても寒くなります



あなたの国にはどんな季節がありますか？

आपके देश में कौन-कौन सी ऋतुएँ होती हैं?



1. 春は桜の花が咲きます

Can-do+ 08

日本の四季についての短い動画を見て、季節の特徴を理解することができます。

जापान की चार ऋतुओं के बारे में छोटे वीडियो देख सकते हैं और मौसमी विशेषताओं को समझ सकते हैं।

1 ことばの準備

शब्दों के लिए तैयारी

【季節のことば】

a. 暑い



b. すずしい



c. 寒い



d. 暖かい



e. じめじめする / 蒸し暑い



f. 雨が降る



g. 雪が降る




h. 桜の花が咲く



i. もみじがきれい(な)



j. セミが鳴く



(1) 絵を見ながら聞きましょう。 03-01

चित्रों की ओर देखते हुए सुनें।

(2) 聞いて言いましょう。 03-01

सुनें और शब्दों को दोहराएँ।

(3) 聞いて、a-j から選びましょう。 03-02


सुनें और a-j में से चुनें।

第3課 冬はとても寒くなります

2 おんせい き 音声を聞きましょう。

रिकॉर्डिंग को सुनें।

- ▶ にほん しょうかい えいぞう み 日本を紹介する映像を見ている。
आप जापान का परिचय देने वाला एक वीडियो देख रहे हैं।



(1) にほん きせつ とくちよう えら 日本の特徴を、1のa-jから選びましょう。🔊 03-03

जापान में प्रत्येक ऋतु की विशेषताएँ 1 के a-j में से चुनें।



はる (,)



つゆ 梅雨 (,)



なつ (,)



ふゆ 冬 (,)



あき 秋 (,)

(2) ことばをかくにん 確認して、もういちどき き 聞きましょう。🔊 03-03

शब्दों को देखें और वर्णन को फिर से सुनें।

たくさん कई/ज्यादा | 学校 学校



かたち ちゅうもく
形に注目

(1) 音声を聞いて、_____にことばを書きましょう。🔊 03-04

रिकॉर्डिंग सुनें और खाली जगहों को भरें।

はる さくら はな さ 暖かく _____。

なつ あつ がっこう やす _____。

あき _____。

❗ へんか について いうとき、どんな形を使っていましたか。➡ 文法ノート ①


बदलावों के बारे में बताने के लिए किस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया?

(2) 形に注目して、音声をもういちど聞きましょう。🔊 03-03

उपयोग हुई अभिव्यक्तियों पर ध्यान दें और वर्णन को फिर से सुनें।

2 自分の国の季節について話しましょう。

अपने देश की ऋतुओं के बारे में बात करें।



(1) 会話を聞きましょう。  03-09  03-10  03-11

संवादों को सुनें।

(2) シャドーイングしましょう。  03-09  03-10  03-11

संवादों के पीछे-पीछे बोलें।

(3) 自分の国や住んでいるところの季節について話しましょう。

अपने देश या निवास के स्थान की ऋतुओं के बारे में बात करें।



3. もみじの景色がきれいですから

Can-do 10

自分が好きな季節とその理由について、簡単に話すことができる。

अपनी पसंदीदा ऋतु और उसे पसंद करने के कारण आसान शब्दों में बता सकते हैं।

1 会話を聞きましょう。

संवाद को सुनें।

川野さんとメリさんとアラムさんが、好きな季節について話しています。

कवानो-सान, मेरी-सान और अराम-सान अपनी-अपनी पसंदीदा ऋतुओं के बारे में बात कर रहे हैं।



(1) はじめに、スクリプトを見ないで会話を聞きましょう。 03-12

好きな季節はいつですか。a-d から選びましょう。

पहले, स्क्रिप्ट को देखे बिना संवाद को सुनें। उनकी पसंदीदा ऋतुएँ क्या-क्या हैं? a-d में से चुनें।

- a. 春 b. 夏 c. 秋 d. 冬

	アラムさん	メリさん	かわの川野さん
好きな季節			

(2) もういちど聞きましょう。 03-12


どうしてその季節が好きですか。ア-カから選びましょう。

संवाद को फिर से सुनें। वे उस ऋतु को क्यों पसंद करते हैं? आ-क में से चुनें।

ア. すずしい



イ. くだもの果物がおいしい



ウ. もみじの景色がきれい



エ. 海や山で遊ぶのが好き



オ. 暑いのが好き



カ. 暑いのが苦手



	アラムさん	メリさん	かわの川野さん
どうして?			

(3) スクリプトを見ながら聞きましょう。🔊 03-12

संवाद को फिर से सुनें। इस बार, स्क्रिप्ट के साथ-साथ सुनें।

かわの 川野 : アラムさん、好きな季節はいつですか？

アラム : そうですね。秋がいちばん好きです。

かわの 川野 : どうしてですか？

アラム : 私は暑いのが苦手ですから。秋はすずしいですから好きです。

メリさんは？

メリ : 私は暑いのが大好きですから、夏が好きです。

かわの 川野 : へー、そうですか。

メリ : 海や山で遊ぶのも楽しいです。

かわの 川野さんは？ どの季節が好きですか？

かわの 川野 : 私も秋が好きですね。

アラム : どうしてですか？

かわの 川野 : もみじの景色がきれいですから。

アラム : そうですね。

かわの 川野 : それに、果物もおいしいですよ。

ぶどうとか梨とか。

～よね

あいて 相手もそうだと思っている
 ことを確認するときの言い方
 ～よね का उपयोग यह देखने के लिए किया
 जाता है कि दूसरा व्यक्ति आपसे सहमत है
 या नहीं।

どうして क्यों | ぶどう अंगूर | 梨 なし 梨 नाशपाती


 かたち ちゅうもく
形に注目

(1) 音声を聞いて、 にことばを書きましょう。🔊 03-13

रिकॉर्डिंग सुनें और खाली जगहों को भरें।

A: 好きな季節はいつですか?

B: 秋が 好きです。

暑い が好きです。

暑い が苦手です。

(A: 秋が好きです)

B: どうしてですか?

A: もみじの景色がきれいです 。

秋はずっと好きです 好きです。

暑いのが大好きです 、夏が好きです。

海 山で遊ぶのも楽しいです。

くだもの果物もおいしいですね。ぶどう 梨 。

❗ 「いちばん」はどんな意味だと思いますか。→ 文法ノート②
आपके विचार से 'いちばん' का क्या मतलब है?

❗ 「～が好きです／苦手です」の前は、どんな形を使っていましたか。→ 文法ノート③
が好きです／苦手です के पहले किस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया?

❗ 理由を言うとき、どんな形を使っていましたか。→ 文法ノート④⑤
एक कारण बताने के लिए किस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया?


❗ 例を挙げるとき、どんな形を使っていましたか。→ 文法ノート⑥⑦
एक उदाहरण देने के लिए किस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया?

(2) 形に注目して、会話をもういちど聞きましょう。🔊 03-12

उपयोग हुई अभिव्यक्तियों पर ध्यान दें और संवाद को फिर से सुनें।

2 好きな季節について話しましょう。

अपनी पसंदीदा ऋतु और उसे पसंद करने के कारण बताएँ।



(1) 会話を聞きましょう。🔊 03-14

संवाद को सुनें।

(2) シャドーイングしましょう。🔊 03-14

संवाद के पीछे-पीछे बोलें।

(3) 自分の好きな季節について話しましょう。言いたいことばが日本語でわからないときは、調べましょう。

अपनी पसंदीदा ऋतु के बारे में बात करें। अगर आप ये नहीं जानते कि किसी बात को जापानी भाषा में क्या कहना है, तो वह पता करें।

ちょうかい
聴解スクリプト

1. 春は桜の花が咲きます

03-03

はる さくら はな さ あた
春は桜の花が咲きます。暖かくなります。

つ ゆ あめ ふ
梅雨は雨がたくさん降ります。じめじめしています。

なつ あつ な がっこう やす
夏は暑いんです。セミが鳴きます。学校が休みになります。

あき
秋はすずしくなります。もみじがきれいです。

ふゆ さむ ゆき ふ
冬は寒いんです。雪が降ります。

2. どんな季節がありますか？

① 03-05

A: ジョーイさんの国には、どんな季節がありますか？

B: 一年中夏です。ずっと暑いんです。

A: そうですか。

② 03-06

A: タムさんの国には、どんな季節がありますか？

B: 雨季と乾季があります。

A: そうですか。

B: 乾季はとても暑いんです。

A: へー。

B: でも、雨季は少しすずしくなります。雨がたくさん降ります。

③ 03-07

A: バヤルさんの国には、どんな季節がありますか？

B: 日本と同じです。四季があります。

でも、夏はとても暑いんです。冬はとても寒いんです。

A: そうですか。

B: 夏は40度、冬はマイナス40度になります。

A: へー、そうなんですか。

④  03-08

A: 陳さんの国には、どんな季節がありますか？

B: 私の国にも四季があります。

でも、夏はとても短いです。

冬がとても長いです。10月ごろから5月ごろまで冬です。

A: そうですか。

B: 雪がたくさん降ります。とても寒いです。

A: そうなんですか。

第3課 冬はとても寒くなります

かん
漢 じ
字 の ことば1 よ
読んで、意味を確認しましょう。

निम्नलिखित कांजी शब्दों को पढ़ें और उनका मतलब पता करें।

きせつ 季節	季節	季節	はな 花	花	花
はる 春	春	春	おな 同じ	同じ	同じ
なつ 夏	夏	夏	あつ 暑い	暑い	暑い
あき 秋	秋	秋	さむ 寒い	寒い	寒い
ふゆ 冬	冬	冬			

2 _____ の漢字に注意して読みましょう。

निम्नलिखित को पढ़ें और _____ वाली कांजी पर ज़्यादा ध्यान दें।

- ① 秋は、くだものがおいしいです。
- ② 春は、いろいろな花が咲きます。
- ③ 私は、暑いのが大好きですから、夏が好きです。
- ④ A: バチカさんのくにには、どんな季節がありますか?
B: 日本と同じです。でも、冬がとても寒いです。

3 上の _____ のことばを、キーボードやスマートフォンで入力しましょう。

ऊपर _____ में दिए शब्दों को कीबोर्ड या स्मार्टफोन की मदद से टाइप करें।

3

イ A- い のが	す 好きです にがて 苦手です
-----------	--------------------------

わたし あつ す さむ にがて
私は暑いのが好きです。寒いのが苦手です。

मुझे गर्म मौसम पसंद है। मुझे ठंडा मौसम पसंद नहीं है।

- पाठ 2 में, जैसे कि **ゲーム**をするのが好きです (मुझे वीडियो गेम्स खेलना पसंद है), हमने क्रिया “के मूल रूप + **のが好きです**” को पढ़ा। **の** को भी **イ-विशेषणों** से जोड़ा जा सकता है, उदाहरण के लिए, **暑い/寒い + のが好きです** (मुझे गर्म/ठंडा मौसम पसंद है)। यहाँ, यह बताता है कि व्यक्ति को किस तरह का मौसम पसंद या नापसंद है।
- **苦手** एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है जिसका मतलब यह है कि किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं है। यह **好き** नहीं की तुलना में कम प्रत्यक्ष है इसलिए बातचीत में अक्सर ज़्यादा उपयोग होता है।
- अधिकतर नकारात्मक वाक्यों में, **が** बदलकर **は** हो जाता है, जैसे कि **~のは好き** नहीं है, या **~のは好き** नहीं है।
- 第2課では、「ゲームをするのが好きです。」のように、「動詞の辞書形 + **のが好きです**」の形を勉強しました。イ形容詞の場合も「**の**」をつけて、「**暑い/寒い + のが好きです**」のように言います。ここでは、気候の好き嫌いを言うときに使っています。
- 「**苦手**」は得意じゃないという否定的な意味の表現で、「好きじゃない」よりも婉曲的な言い方になるため、会話でよく使われます。
- 否定文は「**~のは好き** नहीं है / **~のは好き** नहीं है」のように、「**が**」が「**は**」に変化することが多いです。

【例】 ▶ **寒いのはあまり好き** नहीं है。

मुझे ठंडा मौसम ज़्यादा पसंद नहीं है।

4

ナ A- です イ A- い です	から
----------------------	----

あき す けしき
秋が好きです。もみじの景色がきれいですから。

मुझे पतझड़ पसंद है क्योंकि जापानी मेपल पेड़ खूबसूरत होते हैं।

- **から** को वाक्य के अंत में जोड़कर कारण दर्शाया जाता है। उदाहरण वाक्य **もみじの景色がきれいですから** (क्योंकि जापानी मेपल पेड़ खूबसूरत होते हैं) बताता है कि व्यक्ति को पतझड़ क्यों पसंद है।
- इस पाठ में रूप “विशेषण **です + から**” शामिल है। **から** से पहले क्रिया वाक्य भी उपयोग होते हैं।
- 「**から**」は、文末について理由を表します。例文の「**もみじの景色がきれいですから**。」は、秋が好きな理由を示しています。
- この課では「形容詞**です + から**」の形を取り上げますが、「**から**」の前には動詞文も使われます。

【例】 ▶ A : **好きな季節**はいつですか?

आपकी पसंदीदा ऋतु कौन-सी है?

B : **秋**です。

मुझे पतझड़ पसंद है।

A : **どうして**ですか?

क्यों?

B : **果物**がおいしい**です**から。

क्योंकि फल स्वादिष्ट होते हैं।

5

S1 から、S2

暑いのが大好きですから、夏が好きです。

मुझे गर्म मौसम बहुत पसंद है, इसलिए मुझे ग्रीष्म ऋतु पसंद है।

- कारण के रूप में から का उपयोग न केवल वाक्य के अंत में होता है बल्कि वाक्यों को जोड़ते समय भी होता है। S2 का कारण S1 बताता है।
- इस पाठ में उन रूपों को शामिल किया गया है जो संज्ञा वाक्यों, विशेषण वाक्यों और क्रिया वाक्यों से जुड़ते हैं।
- 理由の「から」は文末に使われるだけではなく、文と文をつなぐ働きがあります。S1 が S2 の理由を示します。
- この課では、名詞文、形容詞文、動詞文に接続する形を取り上げます。

[例] ▶ 果物がおいしいですから、秋が好きです。

फल स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए मुझे पतझड़ पसंद है।

▶ 夏休みがありますから、夏がいちばん好きです。

गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, इसलिए मुझे ग्रीष्म ऋतु सबसे ज्यादा पसंद है।

6

N1 や N2

海や山で遊ぶのも楽しいです。

मुझे समुद्र और पहाड़ों पर खेलने में भी आनंद आता है।

- प्रत्यय や संज्ञाओं को と के जैसे ही जोड़ता है। हालाँकि, や का उपयोग उदाहरण देने के लिए किया जाता है। इस वाक्य में, व्यक्ति न केवल समुद्र और पहाड़ों पर बल्कि नदी और जंगल में भी खेल सकता है। समुद्र और पहाड़ उदाहरण हैं, यह पूरी सूची नहीं हैं।
- N1やN2など कहने के लिए など को N2 से जोड़ा जा सकता है।
- 助詞「や」は、「と」と同じで名詞と名詞をつなぎます。「と」との違いは、「や」は例を挙げるときに使われることです。この文では、海と山以外にも、川や森などで遊ぶことが考えられますが、全部を言わないで、代表例として海と山を挙げています。
- N2 のあとに「など」をつけて「N1 や N2 など」と言うこともあります。

[例] ▶ 春は、桜やチューリップなどの花が咲きます。

वसंत ऋतु में, चेरी ब्लॉसम और ट्यूलिप जैसे फूल खिलते हैं।

7

N1 とか (N2 とか)

あき くだもの
秋は果物がおいしいですね。ぶどうとか梨とか。

पतझड़ में फल स्वादिष्ट होते हैं, अंगूर और नाशपाती के जैसे

- इस अभिव्यक्ति का उपयोग उदाहरण देने के लिए किया जाता है। यहाँ, व्यक्ति पतझड़ में मिलने वाले स्वादिष्ट फलों का उदाहरण दे रहा है।
- ❸ के या के विपरीत, とか का उपयोग केवल एक चीज़ बताते समय भी किया जा सकता है। इस मामले में, आप N1とか कह सकते हैं।
- या की तुलना में, とか एक बोलचाल वाली अभिव्यक्ति है और इसका उपयोग अक्सर बोलचाल वाली भाषा में होता है।
- हालाँकि इस पाठ में केवल संज्ञाओं का उपयोग करने वाले उदाहरण दिए गए हैं, とか भी विशेषणों और क्रियाओं जैसे दूसरे शब्दों में जोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में किया जा सकता है।
- 例を挙げるときの言い方です。ここでは、秋のおいしい果物の例を挙げています。
- 「とか」は、❸の「や」とは違い、例示するものが1つでもかまいません。このときは、「N1とか」になります。
- 「や」に比べると口語的な表現で、話し言葉に多く使われます。
- ここでは、名詞につく例だけを扱いますが、「とか」は形容詞や動詞など、ほかの言葉のあとにも用いられます。また、文中にも文末にも使われます。

れい ▶ 夏休みに、どこか旅行に行きたいですね。北海道とか。

मैं ग्रीष्मावकाश के दौरान बाहर यात्रा पर जाना चाहता/चाहती हूँ। उदाहरण के लिए, होक्काइदो।

▶ A : どのようなスポーツが好きですか?

आपको कौन-सा खेल पसंद है?


B : スキーとか、スケートとか、ウィンタースポーツが大好きです。

मुझे स्कीइंग, स्केटिंग के जैसे सर्दियों के मौसम के अन्य खेल बहुत पसंद हैं।

日本の生活
TIPS● にほん きこう
日本の気候 日本 की जलवायु

एक लंबे, संकीर्ण द्वीप देश होने के कारण जापान की जलवायु उत्तर से दक्षिण तक बहुत अलग-अलग होती है।

日本は南北に細長い島国なので、地域によって気候が大きく異なります。

▶ とうきょう
東京 東京都

トクयो में, मार्च के अंत में बसंत की शुरुआत होने पर मौसम गर्म होने लगता है। जुलाई से अगस्त तक की ग्रीष्म ऋतु बहुत अधिक गर्म और आर्द्रता वाली होती है। कुछ दिन उच्चतम तापमान चालीस डिग्री सेंटीग्रेड के करीब हो जाता है। यह अक्टूबर के आस-पास धीरे-धीरे ठंडा होने लगता है। दिसंबर से फरवरी तक ठंडी हवाएँ चलती हैं। इस समय मौसम आमतौर पर शुष्क और साफ़ रहता है। टोक्यो में, हिमपात असामान्य है और साल में एक दो बार ही होता है।

東京では、3月の終わりがから暖かくなってきて、春になります。7月から8月の夏はとても蒸し暑く、最高気温が40度近くになる日もあります。10月ごろからだんだん寒くなり、12月から2月ごろまで続く冬には、冷たい風が吹いて、乾燥した晴れの天気が続きます。東京では、雪が降ることはめったになく、1年で数回程度です。

▶ ほっかいどう
北海道 北海道

होक्काइदो जापान के उत्तर में स्थित है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु उतनी गर्म नहीं होती और सर्दियों में ठंड पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ ही दिन तापमान तीस डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। सर्दियों में दिन के दौरान तापमान अक्सर शून्य से नीचे होता है। कभी-कभी, न्यूनतम तापमान माइनस बीस डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। जाड़े में बहुत हिमपात होता है।

日本のいちばん北にある北海道は、夏はすずしく冬は寒さが厳しい地域です。夏は30度を超える日は数日しかありませんが、冬の間は日中でも氷点下の日が多く、最低気温がマイナス20度近くになることもあります。冬は雪が深く積もります。



桜は3月下旬から4月にかけて、いっせいに薄いピンクの花を咲かせ、春が来たこと象徴になっています。また、桜の咲く時期は年度の変り目なので、卒業や入学のイメージと結び付けられることもあります。

桜が咲くシーズンの前には、天気予報では、桜がいつ咲き、いつ満開になり、いつ散るかを予想する「開花予想」が報じられます。

日本の各地には、桜で有名なスポットがあります。桜の木の下で、花を見ながら、お弁当を食べたり、お酒を飲んだりするのが「花見」です。桜で有名な公園では、毎年、桜の木の下にレジャーシートを敷いて、花見をする光景が見られます。花見では、いい場所をとるために、朝早くから「場所取り」をすることもあります。

● こうよう

紅葉 पतझड़ वाले पत्ते

शरद ऋतु में, पत्तों के रंग हरे से बदलकर लाल, नारंगी, और पीले हो जाते हैं। इसे कोयो (पतझड़ वाले पत्ते) कहा जाता है। पतझड़ के शुरु होने पर, लोग पत्तों को देखने के लिए सुंदर पेड़ों से भरे पहाड़ों, घाटियों, और बगीचों में जाते हैं। यह ऋतु आमतौर पर अक्टूबर से नवंबर तक रहती है। हालाँकि, यह क्षेत्र और ऊँचाई पर निर्भर करता है। आप पतझड़ वाले पत्तों की जानकारी ऑनलाइन पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कब पत्तों का रंग बदलना शुरू होगा या जमीन पर गिरेंगे। हानामी से अलग, लोग पतझड़ वाले पेड़ों के नीचे पिकनिक नहीं मनाते हैं।



秋になると、木の葉の色が緑から赤やオレンジ、黄色に変わります。これを「紅葉」といいます。紅葉

の季節になると、人々は美しい紅葉を見るために、山や渓谷、庭園などに行きます。紅葉の季節は、だいたい10月から11月ぐらいで、地方や標高によって違います。紅葉のシーズンには、全国各地の紅葉スポットの紅葉がどのような状態か（色づきはじめ～見ごろ～散りぎわ、など）をネットで調べることができます。ただし、紅葉は桜とは違い、紅葉した木の下でお弁当を食べたりお酒を飲んだりする習慣はありません。



● セミ झींगुर

झींगुर ऐसे कीड़े हैं जो पेड़ों और अन्य ऊँचे स्थानों से तेज़ आवाज़ निकालते हैं। जापान में, झींगुर ग्रीष्म ऋतु के आने पर आवाज़ निकालते हैं। पूरे जापान में यह आवाज़ ग्रीष्म ऋतु का प्रतिनिधित्व करती है। झींगुर अलग-अलग तरह के होते हैं जिनके नाम उनकी अनूठी आवाज़ के अनुसार रखे गए हैं। उदाहरण के लिए, *मिन-मिन ज़ेमी*, *त्सुकु-त्सुकु-बोशी*, और *काना-काना*। झींगुर के समूह की आवाज़ को *सेमी-शिगुरे* (झींगुर का सहगान) कहा जाता है। *सेमी-शिगुरे* का उपयोग अक्सर टेलीविजन, फिल्मों और एनीमे में गर्मियों को दर्शाने के लिए ध्वनि प्रभाव के रूप में किया जाता है। इसलिए, गर्मियों में जापान आने वाले विदेशियों को अक्सर टेलीविजन, फिल्मों या एनीमे की ध्वनि की याद आती है।

セミは木の上など高いところで大きな声で鳴く昆虫です。日本では夏になると、あちこちでセミが鳴きます。森や公園だけでなく、住宅地でもジージーと鳴くセミの鳴き声は、日本の夏を代表する音と言えるでしょう。鳴き声も種類によって違い、「ミンミンゼミ」「ツクツクボウシ」「カナカナ」など、鳴き声そのまま呼び名になったセミの種類もあります。多くのセミが一斉に鳴く音は、「せみしぐれ」とも呼ばれています。「せみしぐれ」はドラマやアニメで夏を表す効果音としてもよく使われるので、夏に海外から日本に来た人は、セミの鳴き声を実際に聞いて、「ドラマやアニメで聞いた音!」と思う人もいます。

